



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032020-216567
CG-DL-E-06032020-216567

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 840]
No. 840]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2020/फाल्गुन 12, 1941
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2020/PHALGUNA 12, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

का.आ. 934(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1844(E) dt. 24.05.2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिले में NH36 के कि.मी. 101 से कि.मी.106 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "11.06.2019" को "द हिन्दू" और "दैनिक यन्त्री" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिले में NH36 के कि.मी. 101 से कि.मी.106 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु जिले का नाम: शिवगंगा					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: तिरुपत्तूर				
	गांव का नाम: थेणमापत्तू				
1	10/2C1	निजी	ड्राई	0.0266	अर्जुनन चेट्टियर S/O उदयप्पा चेट्टियर (10/2C1)
2	10/3B	निजी	ड्राई	0.0052	चॉकलिंगम - १ , नटराजन - २ , मारुतः मुथु - ३ , सथाशिवम - ४ , सुतहम्मल - ५ , कामाक्षी - ६ (10/3B1)
3	12/4C3	निजी	वेट	0.0017	पलानिवेल S/O वैरवपिळ्ळै (12/4C3A)
4	12/4D1	निजी	वेट	0.0135	जयलक्ष्मी W/O पांडियन (12/4D1A)
5	13/6B	निजी	वेट	0.0071	साथयह - १ , पलानिवेल - २ S/O वैरवन पिल्लई (13/6B1)
6	15/1A1	निजी	वेट	0.004	वैरवन S/O पालनिवेलु (15/1A1B)

7	15/1B1	निजी	वेट	0.0044	चंडीरा W/O स . मणि (15/1B1B)
8	15/1B3	निजी	वेट	0.0024	चंडीरा W/O स . मणि (15/1B3)
9	15/1C2	निजी	वेट	0.0038	वैरवन S/O पालनिवेलु (15/1C2A)
10	15/1E2A	निजी	वेट	0.0054	वैरवन S/O पालनिवेलु (15/1E2A)
11	15/2A2	निजी	ड्राई	0.0117	मैरी निर्मला डी / ो इंदिरा (15/2A2B)
12	18	निजी	ड्राई	0.018	षण्मुगम पिल्लई - १ , मरुथप्पा पिल्लई - २ (18/1A1B)
13	18	निजी	ड्राई	0.1	अलगप्पा पिल्लई S/O करुप्पईएह पिल्लई (18/1B1B)
14	18	निजी	ड्राई	0.1374	अलगप्पा पिल्लई S/O करुप्पईएह पिल्लई (18/1B5B)
15	18	निजी	ड्राई	0.0262	करुप्पईएह पिल्लई S/O परमशिवम पिल्लई (18/2B)
16	18	निजी	ड्राई	0.1344	पलनीमुरुगन S/O सेतुमाधवन (18/87B)
17	18	निजी	ड्राई	0.0117	नारायणन चेट्टियर S/O चॉकलिंगम चेट्टियर (18/1B2A)
18	18	निजी	ड्राई	0.0111	लक्ष्मणन S/O नारायणन चेट्टियर (18/1B3A)
19	18	निजी	ड्राई	0.0099	वैरवन S/O नारायणन चेट्टियर (18/1B4A)
20	18	निजी	ड्राई	0.0174	मुहम्मद अली S/O सईद रौथार (18/18A)

21	187/6A	निजी	वेट	0.0008	जीवननठाम S/O रामयः (187/6A)
22	187/7A	निजी	वेट	0.005	जीवननठाम S/O रामयः (187/7A)
23	196/2A	निजी	ड्राई	0.049	नगरथिनम पिल्लई S/O अमिर्थालिंगम पिल्लई (196/2A)
24	196/3	निजी	ड्राई	0.02	अमरज्योति W/O शेरिफ (196/3)
25	196/39A	निजी	ड्राई	0.0036	नगरथिनम पिल्लई S/O अमिर्थालिंगम पिल्लई (196/39A)
26	196/40A1B	निजी	ड्राई	0.0035	नगरथिनम पिल्लई S/O अमिर्थालिंगम पिल्लई (196/40A1B)
27	196/40A2A	निजी	ड्राई	0.0114	मुरुगेसन S/O सिंगारम (196/40A2A)
28	196/40B1	निजी	ड्राई	0.0077	शांति W/O विजयकुमार (196/40B1)
29	196/41A	निजी	ड्राई	0.0013	नगरथिनम पिल्लई S/O अमिर्थालिंगम पिल्लई (196/41A)
30	196/42A	निजी	ड्राई	0.0072	नगरथिनम पिल्लई S/O अमिर्थालिंगम पिल्लई (196/42A)
31	196/4A	निजी	ड्राई	0.0095	अमरज्योति W/O शेरिफ (196/4A)
32	39/3	निजी	वेट	0.0395	सिवगणनाम S/O षण्मुगम चेट्टियर (39/3)
33	39/4A	निजी	ड्राई	0.0128	सुब्बैयह पिल्लई S/O ाम्मैयाप्पा पिल्लई (39/4A)
34	39/8A	निजी	वेट	0.0023	सिवगणनाम S/O षण्मुगम चेट्टियर

					(39/8A)
35	39/9A	निजी	वेट	0.0238	सिवगणनाम S/O षण्मुगम चेट्टियर (39/9A2)
36	46	निजी	वेट	0.0079	तमिलरसी W/O मणिकवेलु (46/3B)
37	46	निजी	वेट	0.0147	तमिलरसी W/O मणिकवेलु (46/4A2)
38	47	निजी	वेट	0.0137	अम्बिकापाठी S/O नटराज पिल्लई (47/4A2)
39	48	निजी	वेट	0.022	कला W/O आ. व. सुन्दरम (48/1A2)
40	56	निजी	वेट	0.0241	कन्नगी W/O पन्निर सेल्वम (56/3A1B)
41	56	निजी	वेट	0.0054	थिरुप्पुर थिरुथलाई नाथ स्वामी कोविल प्रेजेंट ट्रस्टी (56/3B2A)
42	56	निजी	वेट	0.0229	मणिकम पिल्लई S/O गणपति पिल्लई (56/2A2)
43	71/1C	निजी	ड्राई	0.066	उमा माहेश्वरी W/O मुथु (71/1C)
44	71/2	निजी	सूखा	0.0004	करुप्पईएह S/O पलानियप्पन (71/2)
45	72/4A4	निजी	वेट	0.0071	शांति W/O राजेंदीरण (72/4A4B)
46	72/4D	निजी	वेट	0.0048	मुथथल W/O वेलाक्कननु (72/4D2)
47	73/3	निजी	वेट	0.0012	कसिनाथं S/O सुब्रमनियन (73/3A)
48	73/4B	निजी	वेट	0.0003	जयलक्ष्मी W/O पांडियन (73/4B2)
49	73/6A	निजी	वेट	0.0016	सोमसुंदरम S/O रामासामी (73/6A2)

50	74/2	सरकारी	पोरंबोके	0.0786	गवर्नमेंट ऑफ़ तमिलनाडु (74/2)
51	88/1	सरकारी	पोरंबोके	0.0021	गवर्नमेंट ऑफ़ तमिलनाडु (88/1)
52	89/2	निजी	वेट	0.0174	अलगप्पे - १ , बालासुब्रमण्यन - २ S/O सुब्बैयह , लक्ष्मणन S/O राजगोपाल - ३ (89/2)
53	89/5	सरकारी	पोरंबोके	0.0024	गवर्नमेंट ऑफ़ तमिलनाडु (89/5)
54	9/5A2	निजी	ड्राई	0.0005	पंचाचाराम - १ , दुरैकानु - २ S/O उलगनाथं चेट्टियर (9/5A2)
55	90/1	सरकारी	पोरंबोके	0.138	गवर्नमेंट ऑफ़ तमिलनाडु (90/1)
56	90/2	निजी	वेट	0.022	कसिपिळ्ळै S/O सुब्बूपिल्लई - १ , कलियम्मि W/O चॉकलिंगम पन्दराम - २ , माइकल अम्मल - ३ (90/2A)
गांव का नाम: तिरुप्पत्तूर					
57	300 Pt	निजी	नाथम मनाई	0.0048	र . म . मुनियम्मल (300/203B)
58	301 Pt	सरकारी	पोरंबोके	0.019	गवर्नमेंट ऑफ़ तमिलनाडु (301/2)
			कुल	1.2262	

[फा. सं. NHAI/2018-LA/3a-Notif/NH36/PIU-Madurai/dt 28-03-2018/3D]

राजेश गुप्ता उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2020

S.O. 934(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 1844(E) dated 24th May, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building

(widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH36 on the stretch of land from Km 101 to Km 106 in the district of SIVAGANGA in the state of TAMIL NADU

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu” and “Daily Thanthi” both dated 11th June 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH36.. in the stretch of land from NH36 in the district of SIVAGANGA in the state of TAMIL NADU

State: TAMIL NADU District: SIVAGANGA					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Tirupattur				
	Village: Thenmapattu				
1	10/2C1	Private	DRY	0.0266	ARJUNAN CHETTIAR S / O UDAIYAPPA CHETTIAR 10/2C1
2	10/3B	Private	DRY	0.0052	CHOCKALINGAM - 1, NATARAJAN - 2 , MARUTHA MUTHU - 3 , SATHASIVAM - 4 , MUTHAMMAL - 5 , KAMAKSHI - 6 10/3B1
3	12/4C3	Private	Wet	0.0017	PALANIVEL S / O VAIRAVAPILLAI 12/4C3A
4	12/4D1	Private	Wet	0.0135	JAYALAKSHMI W / O PANDIYAN 12/4D1A
5	13/6B	Private	Wet	0.0071	SATHAIAH - 1 , PALANIVEL - 2 S / O VAIRAVAN PILLAI 13/6B1
6	15/1A1	Private	Wet	0.004	VAIRAVAN S / O PALANIVELU 15/1A1B
7	15/1B1	Private	WET	0.0044	CHANDIRA W / O S . MANI 15/1B1B
8	15/1B3	Private	WET	0.0024	CHANDIRA W / O S . MANI 15/1B3
9	15/1C2	Private	WET	0.0038	VAIRAVAN S / O PALANIVELU

					15/1C2A
10	15/1E2A	Private	WET	0.0054	VAIRAVAN S / O PALANIVELU 15/1E2A
11	15/2A2	Private	DRY	0.0117	MARY NIRMALA D / O INDIRA 15/2A2B
12	18	Private	DRY	0.018	SHANMUGAM PILLAI - 1 , MARUTHAPPA PILLAI - 2 18/1A1B
13	18	Private	DRY	0.1	ALAGAPPA PILLAI S / O KARUPPAIAH PILLAI 18/1B1B
14	18	Private	DRY	0.1374	ALAGAPPA PILLAI S / O KARUPPAIAH PILLAI 18/1B5B
15	18	Private	DRY	0.0262	KARUPPAIAH PILLAI S / O PARAMASIVAM PILLAI 18/2B
16	18	Private	DRY	0.1344	PALANIMURUGAN S / O SETHUMADHAVAN 18/87B
17	18	Private	DRY	0.0117	NARAYANAN CHETTIAR S / O CHOCKALINGAM CHETTIAR 18/1B2A
18	18	Private	DRY	0.0111	LAKSHMANAN S / O NARAYANAN CHETTIAR 18/1B3A
19	18	Private	DRY	0.0099	VAIRAVAN S / O NARAYANAN CHETTIAR 18/1B4A
20	18	Private	DRY	0.0174	MOHAMMED ALI S / O SYED RAWTHAR 18/18A
21	187/6A	Private	Wet	0.0008	JEEVANANTHAM S / O RAMAIAH 187/6A
22	187/7A	Private	WET	0.005	JEEVANANTHAM S / O RAMAIAH 187/7A
23	196/2A	Private	DRY	0.049	NAGARATHINAM PILLAI S / O AMIRTHALINGAM PILLAI 196/2A
24	196/3	Private	DRY	0.02	AMARJOTHI W / O SHERIFF 196/3
25	196/39A	Private	Dry	0.0036	NAGARATHINAM PILLAI S / O AMIRTHALINGAM PILLAI 196/39A
26	196/40A1B	Private	DRY	0.0035	NAGARATHINAM PILLAI S / O AMIRTHALINGAM PILLAI 196/40A1B
27	196/40A2A	Private	DRY	0.0114	MURUGESAN S / O SINGARAM 196/40A2A2

28	196/40B1	Private	DRY	0.0077	SHANTHI W / O VIJAYAKUMAR 196/40B1
29	196/41A	Private	DRY	0.0013	NAGARATHINAM PILLAI S / O AMIRTHALINGAM PILLAI 196/41A
30	196/42A	Private	DRY	0.0072	NAGARATHINAM PILLAI S / O AMIRTHALINGAM PILLAI 196/42A
31	196/4A	Private	DRY	0.0095	AMARJOTHI W / O SHERIFF 196/4A
32	39/3	Private	WET	0.0395	SIVAGNANAM S / O SHANMUGAM CHETTIAR 39/3
33	39/4A	Private	DRY	0.0128	SUBBAIAH PILLAI S / O AMMAIYAPPA PILLAI 39/4A
34	39/8A	Private	WET	0.0023	SIVAGNANAM S / O SHANMUGAM CHETTIAR 39/8A
35	39/9A	Private	WET	0.0238	SIVAGNANAM S / O SHANMUGAM CHETTIAR 39/9A2
36	46	Private	WET	0.0079	TAMILARASI W / O MANICKAVELU 46/3B
37	46	Private	WET	0.0147	TAMILARASI W / O MANICKAVELU 46/4A2
38	47	Private	WET	0.0137	AMBIKAPATHI S / O NATARAJA PILLAI 47/4A2
39	48	Private	WET	0.022	KALA W / O A . V . SUNDHARAM 48/1A2
40	56	Private	WET	0.0241	KANNAGI W / O PANNEER SELVAM 56/3A1B
41	56	Private	WET	0.0054	THIRUPPATHUR THIRUTHALAI NATHAR SWAMI KOVIL PRESENT TRUSTEE 56/3B2A
42	56	Private	WET	0.0229	MANICKAM PILLAI S / O GANAPATHIYA PILLAI 56/2A2
43	71/1C	Private	DRY	0.066	UMA MAHESHWARI W / O MUTHU 71/1C
44	71/2	Private	DRY	0.0004	KARUPPAIAH S / O PALANIYAPPAN 71/2
45	72/4A4	Private	WET	0.0071	SHANTHI W / O RAJENDIRAN 72/4A4B

46	72/4D	Private	WET	0.0048	MUTHATHAL W / O VELLAKKANNU 72/4D2
47	73/3	Private	WET	0.0012	KASINATHAN S / O SUBRAMANIAN 73/3A
48	73/4B	Private	WET	0.0003	JEYALAKSHMI W / O PANDIYAN 73/4B2
49	73/6A	Private	WET	0.0016	SOMASUNDHARAM S / O RAMASAMY 73/6A2
50	74/2	Government	Poramboke	0.0786	GOVERNMENT OF TAMILNADU 74/2
51	88/1	Government	Poramboke	0.0021	GOVERNMENT OF TAMILNADU 88/1
52	89/2	Private	WET	0.0174	ALAGAPPAN - 1 , BALASUBRAMANIAN - 2 S / O SUBBAIAH , LAKSHMANAN S / O RAJAGOPAL - 3 89/2
53	89/5	Government	Poramboke	0.0024	GOVERNMENT OF TAMILNADU 89/5
54	9/5A2	Private	DRY	0.0005	PANCHATCHARAM - 1 , DURAIKANNU - 2 S / O ULAGANATHAN CHETTIAR 9/5A2
55	90/1	Government	Poramboke	0.138	GOVERNMENT OF TAMILNADU 90/1
56	90/2	Private	WET	0.022	KASIYAPILLAI S / O SUBBUPILLAI - 1 , KALIYAMMAI W / O CHOCKALINGAM PANDARAM - 2 , MICHAEL AMMAL - 3 90/2A
Village: Tiruppattur					
57	300 Pt	Private	Natham Manai	0.0048	R . M . MUNIYAMMAL 300/203B
58	301 Pt	Government	Poramboke	0.019	GOVERNMENT OF TAMILNADU 301/2
			TOTAL	1.2262	

[F. No. NHAI/2018-LA/3a-Notif/NH36/PIU-Madurai/dt 28-03-2018/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.